



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 109]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 2, 1977/फाल्गुन 11, 1898

No. 109]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 2, 1977 PHALGUNA 11, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 2nd March 1977

S.O. 208 /E /18E/IDFA/77.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 602(E)/18AA/IDRA 74, dated the 9th October 1974, issued under section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government has authorised a Board of Management to take over the management of the industrial undertaking known as Messrs Motor and Machinery Manufacturers Limited Calcutta (hereinafter in this Order referred to as the said industrial undertaking), for the period specified therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18E read with sub-section (5) of section 18AA, of the said Act, the Central Government hereby specifies, in the Schedule annexed hereto, exceptions, restrictions and limitations subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956), shall continue to apply to the said industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the said Order

THE SCHEDULE

Provisions of the Companies Act, 1956 Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisions mentioned in column (1) shall apply to the said industrial undertaking

(1)	(2)
Section 166	Provision of this section shall not apply to the said industrial undertaking.
Section 169	do
Section 210(1)	do
Section 212	do
Section 214	do
Section 217	do
Section 224	do
Section 225	do
Section 293	do
Section 294(2)	do

[No. F. 2(9)/74-CUG]

A. K. GHOSH,
Addl. Secy.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 मार्च 1977 ;

का० आ० 208 (अ)/18 उ० उ० वि० वि० अ०/77—केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 कक के अधीन जारी किए गए भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 602(अ) 18कक/उ० वि० वि० अ०/74, तारीख 9 अक्टूबर, 1974 द्वारा एक प्रबंध बोर्ड को मैसर्स मोटर एंड मशीनरी मैनुफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) का प्रबंध, उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया है।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 18कक की उपधारा (5) के साथ पठित धारा 18 उ की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध अनुसूची में उन अध्यादेशों, निर्बंधनों और सीमाओं को विनिर्दिष्ट करती है जिनके अधीन रहते हुए कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) उक्त औद्योगिक उपक्रम को उसी रूप में लागू होता रहेगा जैसा कि वह उसे उक्त आदेश के जारी किए जाने के पूर्व लागू होता था।

अनुसूची

कम्पनी अधिनियम, 1956 वे: उपबन्ध	वे अपवाद, निर्बन्धन और सीमाएँ, जिनसे अध्याधीन स्तम्भ (1) में वर्णित उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू होंगे।
1	2
धारा 166	इस धारा का उपबन्ध उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होगा।
धारा 169	यथोक्त
धारा 210 (1)	यथोक्त
धारा 212	यथोक्त
धारा 214	यथोक्त
धारा 217	यथोक्त
धारा 224	यथोक्त
धारा 225	यथोक्त
धारा 293	यथोक्त
धारा 294 (2)	यथोक्त

[पं० फा० 2(9)/74-सी० यू० सी०]

ए० वे० घोष, अपर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा

मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

